



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2006/फाल्गुन 17, 1927

No. 90]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2006/PHALGUNA 17, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2006

सा.का.नि. 145(अ).—भारत के राजपत्र की अधिसूचना सा.का.नि. 23(अ) दिनांक 10 जनवरी, 2006 के पृष्ठ 1 (एक) पर नियम 9-क में—

ऊंचाई (से.मी.)		छाती की चौड़ाई (से.मी.)	
		सामान्य	विस्तार
पुरुष अभ्यर्थी	16	37	905
के स्थान पर			
पुरुष अभ्यर्थी	163	79	05

[फा. सं. 3-17/99-आर टी (खण्ड)]

ए. के. गोयल, उप वन महानिरीक्षक (आर. टी.)